

**“राष्ट्रीय एकता दिवस”**  
(दिनांक 31 अक्टूबर, 2020)

आंतरिक सुरक्षा अकादमी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आबू पर्वत में दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 को श्री अरुण कुमार, निदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक, आंसुअ, केरिपुबल के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर श्री के. थोमस जोब, उप महानिरीक्षक (प्रशासन/प्रशिक्षण), आंसुअ, केरिपुबल ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड को संबोधित करते हुए आज के दिन के महत्व एवं भारतवर्ष को एकीकृत करने में सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल एक स्वतंत्रता सेनानी तथा उच्च कोटि के राजनितिज्ञ एवं सामाजिक नेता थे एवं देश की आजादी में उनका अतुल्यनीय योगदान रहा है। बारदोली सत्याग्रह का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने पर उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गयी थी। आज का दिन “राष्ट्रीय एकता दिवस” सरदार पटेल को उनके जन्म दिवस पर समर्पित है। इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए शपथ दिलायी गई। तथा सांय:काल में श्री विजय चौधरी, सहायक कमांडेंट एवं परेड कमांडर के नेतृत्व में भव्य मार्च पास्ट का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्री के.के. पाण्डेय, कमांडेंट ने परेड की सलामी ली। इस अवसर आंसुअ, के सभी राजपत्रित अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, एवं जवान उपस्थित थे।

**राष्ट्रीय एकता दिवस पर ली गई “शपथ”**

मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ जिसे सरदार वल्लभभाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ।



श्री के. थोमस जोब, उप महानिरीक्षक (प्रशा./प्रशि.), आंसुअ, केरिपुबल, आबू पर्वत, राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ दिलाते हुए हुए।



राष्ट्रीय एकता दिवस पर परेड द्वारा मार्च पास्ट किया गया एवं श्री के.के. पाण्डेय, कमांडेंट (प्रशासन/प्रशिक्षण) द्वारा सलामी ली गई ।



श्री के.के. पाण्डेय, कमांडेंट (प्रशासन/प्रशिक्षण), आंसुअ, आबू पर्वत में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड को संबोधित करते हुए।